



फाइल संख्या: ए-35020/4/2023-स्थापना (क.सं. 3840)

भारत सरकार / Government of India

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान

Institute of Secretariat Training & Management

(एक आईएसओ 9001:2015 संस्था / AN ISO 9001:2015 INSTITUTION)

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग / Department of Personnel & Training

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति आधार पर विभिन्न संकाय पदों को भरा जाना संबंधी सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान में निम्नलिखित संकाय पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों के विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्रम संख्या	पदनाम	रिक्ति संख्या	वेतन मैट्रिक्स के अंतर्गत वेतन लेवल	पात्र वर्ग
(i)	अपर निदेशक	01	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 (रु. 123100- रु. 215900)	केंद्र सरकार या राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों में कार्यरत अधिकारी.
(ii)	संयुक्त निदेशक (व्यावहारिक प्रशिक्षण)	01	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 (रु. 78800-रु. 209200)	केंद्र सरकार या राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सरकारी विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सांविधिक या स्वायत्त संगठनों में कार्यरत अधिकारी.
(iii)	उप निदेशक (अर्थशास्त्र और योजना)	01	वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 (रु. 67700-रु. 208700)	केंद्र सरकार या राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों में कार्यरत अधिकारी.
(iv)	सहायक निदेशक (कार्यालय प्रबंधन)	01	लेवल 08 (रु. 47600- रु. 151,100)	केंद्र सरकार में कार्यरत अधिकारी.

- नियुक्ति किए जाने पर अधिकारी या तो "प्रतिनियुक्ति पद का वेतन" अथवा उसके "मूल विभाग / संवर्ग में प्राप्त मूल वेतन" और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मूल वेतन पर निर्धारित किए गए दर के अनुसार "उस पर प्रशिक्षण भत्ता" प्राप्त करने के/की हकदार होंगे/होंगी. (वर्तमान में प्रशिक्षण भत्ता की दर 12% है.)
- पात्रता शर्तों के विवरण और निर्धारित प्रोफॉर्मा, जिसमें आवेदन भेजे जाने चाहिए, स.प्र.प्र.सं. की वेबसाइट: <https://www.istm.gov.in/home/other circular> से डाउनलोड किए जा सकते हैं.
- केवल उन्हीं अधिकारियों/आवेदनकर्ताओं के आवेदनों पर विचार किया जाएगा, जिनके आवेदन उचित माध्यम (चैनल) द्वारा प्रेषित किए जाएंगे और जिनके साथ (i) विवरणों से युक्त रिक्ति परिपत्र के अनुलग्नक-II (क), (ख), (ग), (घ) में विहित प्रोफॉर्मा प्रारूप में जीवनवृत्त (बायोडाटा) (चार प्रतियों में) (ii) संवर्ग अनापत्ति (iii) सतर्कता अनापत्ति तथा (iv) पांच वर्षों की सत्यापित वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट भेजी जाएगी. ऐसे आवेदनकर्ता जो दिनांक 27.12.2025 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशित रिक्ति परिपत्र के अनुसार अपर निदेशक के पद के लिए पहले ही आवेदन कर चुके हैं, उनके द्वारा दोबारा आवेदन किए जाने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उनके अनुभव विवरणों, लेवल आदि में कोई ऐसा परिवर्तन न हो जो पद के लिए उनके योग्यता-दावा को प्रबल बनाने में उपयोगी साबित हो सके, अन्यथा उनके आवेदन पर यथावत विचार किया जाएगा.
- उपयुक्त और पात्र अधिकारियों, जिन्हें चयन होने की स्थिति में तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन श्री राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव (आईएसटीएम अनुभाग), प्रशिक्षण प्रभाग, ब्लॉक-IV, तृतीय तल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (पुराना) परिसर, नई दिल्ली-110067 को एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भिजवा दिए जाएं.



फाइल संख्या: ए-35020/04/2023-स्थापना (कं.सं. 3840)

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान

INSTITUTE OF SECRETARIAT TRAINING & MANAGEMENT

(एक आईएसओ 9001:2015 संस्था / AN ISO 9001:2015 INSTITUTION)

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग / DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय / MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

दिनांक: 04 मई, 2026

सेवा में (डीओपीटी और आईएसटीएम के वेबसाइट/ई-मेल के माध्यम से)

1. सचिव, सभी मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार
(मानक सूची के अनुसार)
2. मुख्य सचिव, सभी राज्य सरकार तथा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय
(मानक सूची के अनुसार)
3. प्रमुख, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय या अर्ध-सरकारी अथवा सांविधिक या स्वायत्त संगठन

विषय: सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति आधार पर विभिन्न संकाय पदों को भरा जाना-संबंधी।

महोदया/महोदय,


मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम) जो कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार (जीओआई), नई दिल्ली के अधीन एक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है, निम्नलिखित संकाय पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव रखता है। पदों से जुड़े विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्रम संख्या	पदनाम	रिक्ति संख्या	वेतन मैट्रिक्स लेवल	में	पात्र वर्ग
(i)	अपर निदेशक	01	वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 (₹123100-₹215900)	में	केंद्र सरकार या राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों में कार्यरत अधिकारी।
(ii)	संयुक्त निदेशक (व्यावहारिक प्रशिक्षण)	01	वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 (₹78800-₹209200)	में	केंद्र सरकार या राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सरकारी विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सांविधिक या स्वायत्त संगठनों में कार्यरत अधिकारी।
(iii)	उप निदेशक (अर्थशास्त्र और योजना)	01	वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 (₹67700-₹208700)	में	केंद्र सरकार या राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों में कार्यरत अधिकारी।
(iv)	सहायक निदेशक (कार्यालय प्रबंधन)	01	लेवल-08 (₹47600-₹151,100)	में	केंद्र सरकार में कार्यरत अधिकारी।

2. नियुक्ति पर अधिकारी या तो "प्रतिनियुक्त पद का वेतन" अथवा उसके "मूल विभाग/संवर्ग में प्राप्त मूल वेतन" और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मूल वेतन पर निर्धारित किए गए दर के अनुसार "उस पर प्रशिक्षण भत्ता" प्राप्त करने के/की हकदार होंगे/होंगी। (वर्तमान में प्रशिक्षण भत्ता की दर 12% है।) पदों के लिए अपेक्षित पात्रता शर्तें, अर्हताएं और अनुभव तथा अन्य विवरण अनुलग्नक-I (क), (ख), (ग), (घ) में दिए गए हैं।
3. अनुरोध है कि उपयुक्त और पात्र अधिकारियों, जिन्हें चयन होने की स्थिति में तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन (चार प्रतियों में) श्री राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव (आईएसटीएम अनुभाग), प्रशिक्षण प्रभाग, ब्लॉक-IV, तृतीय तल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (पुराना) परिसर, नई दिल्ली-110067 को इंप्लॉयमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भिजवा दिए जाएं।
4. केवल उन्हीं अधिकारियों/आवेदनकर्ताओं के आवेदनों पर विचार किया जाएगा जिनके आवेदन उचित माध्यम द्वारा प्रेषित किए जाएंगे और जिनके साथ विवरणों से युक्त रिक्ति परिपत्र के (i) अनुलग्नक-II (क), (ख), (ग), (घ) में दिए गए प्रोफॉर्मा में जीवनवृत्त (बायोडाटा) (चार प्रतियों में) तथा (ii) संवर्ग अनापत्ति (iii) सतर्कता अनापत्ति (iv) पाँच वर्षों के सत्यापित वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) भेजे जाएंगे। ऐसे आवेदनकर्ता जो दिनांक 27.12.2025 की इंप्लॉयमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार में प्रकाशित रिक्ति परिपत्र के अनुसार अपर निदेशक के पद के लिए पहले ही आवेदन कर चुके हैं, उनके द्वारा दोबारा आवेदन किए जाने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उनके अनुभव विवरणों, लेवल आदि में कोई ऐसा परिवर्तन न हो जो पद के लिए उनके योग्यता-दावा को प्रबल बनाने में उपयोगी साबित हो सके, अन्यथा उनके आवेदन पर यथावत विचार किया जाएगा।
5. अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों अथवा जिनके साथ निर्धारित दस्तावेज नहीं होंगे अथवा जो अन्यथा अपूर्ण या निर्धारित प्रोफॉर्मा में नहीं होंगे, को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
6. आवेदन अग्रेषित करने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सत्यापित कर लिया जाए कि आवेदक द्वारा भरी गई सूचनाएं उसके सेवा रिकॉर्ड से सत्यापित कर ली गई हैं और उन्हें सही पाया गया है तथा आवेदन पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर कर दिए गए हैं एवं कार्यालय की मुहर लगा दी गई है। इस बात की भी पुष्टि कर ली जाए कि नियुक्ति के लिए चुने जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।
7. कृपया आपके संगठन के विभिन्न एककों में इस परिपत्र का व्यापक परिचालन किया जाए।

भवदीया,

संलग्नक: अनुलग्नक I (क), (ख), (ग), (घ)
अनुलग्नक II (क), (ख), (ग), (घ)



(शेफाली सराफ)

अवर सचिव (स्थापना)

दूरभाष संख्या: 26737614

प्रति:

1. श्री राम भगत कुशवाहा, अवर सचिव (आईएसटीएम अनुभाग), प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, ब्लॉक-IV, तृतीय तल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (पुराना) परिसर, नई दिल्ली-110067
2. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान को इस अनुरोध के साथ कि इसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग एवं सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
3. अवर सचिव (सी.एस.।) [कृपया ध्यानार्थ: श्री सुनील कुमार], लोक नायक भवन, खान मार्केट, दिल्ली-110003- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ।

अनुलग्नक-1 (क)

1. पदनाम : अपर निदेशक
2. पदों की संख्या : 01 (एक)
3. जिस तिथि से पद रिक्त है : 17.12.2024
4. वर्गीकरण : सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय
5. वेतन बैंड : वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 (₹123100-₹215900)
6. प्रशिक्षण भत्ता : भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मूल वेतन संबंधी यथानिर्धारित दर (वर्तमान में 12 प्रतिशत की दर) के अनुसार।
7. प्रतिनियुक्ति की अवधि : केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व किसी अन्य संवर्ग-बाह्य धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित वर्तमान प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया **तीन वर्ष** से अधिक नहीं होगी।
8. पद से जुड़े कार्यों का संक्षिप्त विवरण : (i) केंद्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि के/की वरिष्ठ/पर्यवेक्षण एवं प्रचालन स्तर के/की अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्धारित, आयोजित और निदेशित करना।
(ii) प्रशिक्षण सामग्री, मामला अध्ययन आदि को विकसित करना।
(iii) ई-सामग्री विकसित करना, अनुदेश की रूपरेखा एवं पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना।
(iv) प्रशिक्षण सत्र, अनुसंधान संबंधी गतिविधियां एवं परामर्श-सेवा कार्य का संचालन करना।
(v) प्रशासन और प्रशिक्षण से संबंधित मामलों में, जैसा भी मामला सौंपा जाए, संस्थान के निदेशक की सहायता करना।
9. वेतन एवं भत्ते : नियुक्ति पर अधिकारी या तो "प्रतिनियुक्त पद का वेतन" अथवा उसके "मूल विभाग/संवर्ग में प्राप्त मूल वेतन" और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मूल वेतन पर निर्धारित किए गए दर के अनुसार "उस पर प्रशिक्षण भत्ता" प्राप्त करने के/की हकदार होंगे/होंगी। (वर्तमान में प्रशिक्षण भत्ता की दर 12% है।)

10. पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं, अनुभव और पात्रता **प्रतिनियुक्ति (और अल्पकालिक संविदा)**

केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों में कार्यरत ऐसे/ऐसी अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए/हुई हैं; अथवा
(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा की है; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते/रखती हों:

अनिवार्य:

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक की उपाधि; और
(ii) भारत सरकार में अनुसचिवीय पदों पर प्रशासनिक या स्थापना मामलों में आठ वर्ष का अनुभव; और
(iii) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के अधीन संगठनों या प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने का दो वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानों से लोक प्रशासन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि;

(ii) निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुभव:-

क) भारत सरकार में एकीकृत वित्त प्रभाग या प्रशासनिक सतर्कता अथवा लेखा प्रभाग में अनुसचिवीय पदों पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव; या

ख) ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूलों को तैयार करना या अनुदेश अथवा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना।

11. आयु

आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि तक आयु **छप्पन (56)** वर्ष से अधिक न हो।

स.प्र.प्र.सं. में अपर निदेशक के पद के लिए आवेदन प्रपत्र
जीवनवृत्त/शैक्षिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव प्रपत्र

1. नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में)	
2. जन्म तिथि (ईसवी सन)	
3. (i) सेवा में प्रवेश की तिथि	
(ii) केंद्र/राज्य सरकार के नियमाधीन सेवानिवृत्ति की तिथि	
4. शैक्षिक अर्हताएं	
5. क्या आप पद हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण करते/करती हैं? (यदि किसी अर्हता को नियमों के अनुसार निर्धारित अर्हता के समकक्ष माना गया है, तो उसके प्राधिकार का उल्लेख करें।)	
विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित अर्हताएं/अनुभव
अनिवार्य	अनिवार्य
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की उपाधि; और	क) अर्हता
अनुभव:- (i) भारत सरकार में अनुसचिवीय पदों पर प्रशासनिक या स्थापना मामलों में आठ वर्ष का अनुभव; और (ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के अधीन संगठनों या प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने का दो वर्ष का अनुभव।	ख) अनुभव
वांछनीय:	वांछनीय:
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानों से लोक प्रशासन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि।	क) अर्हता
(ii) निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुभव:- क) भारत सरकार में एकीकृत वित्त प्रभाग या प्रशासनिक सतर्कता अथवा लेखा प्रभाग में अनुसचिवीय पदों पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव; या	ख) अनुभव

ख) ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल्स को तैयार करना या अनुदेश अथवा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना।	
---	--

5.1 नोट: परिपत्र के जारी होने तथा रोजगार समाचार में विज्ञापन के जारी होने के समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा भर्ती नियमों में यथा उल्लिखित अनिवार्य एवं वांछनीय अर्हताओं को इंगित करने के लिए यह कॉलम बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

5.2 स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हताओं के विषय में आवेदनकर्ता द्वारा वैकल्पिक/मुख्य विषयों एवं सहायक विषयों को इंगित किया जाए।

6. कृपया स्पष्ट रूप से लिखें कि क्या आपके द्वारा ऊपर के कॉलमों में दर्ज की गई प्रविष्टियों के अनुसार, आप पद हेतु अपेक्षित आवश्यक अर्हताएं एवं कार्य अनुभव पूर्ण करते/करती हैं।

6.1 नोट: आदाता विभाग द्वारा आवेदित पद के संदर्भ में आवेदनकर्ता द्वारा धारित (जैसा कि जीवन वृत्त में दर्शाया गया है) संगत आवश्यक अर्हता/ कार्य अनुभव की पुष्टि करते हुए अपनी विशिष्ट टिप्पणियां/विचार प्रदान किया जाना होगा।

7. रोजगार का कालक्रमबद्ध विवरण दें। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है, तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित कर एक अलग शीट संलग्न करें।

कार्यालय/संस्थान	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	*वेतन मैट्रिक्स के अंतर्गत लेवल/ वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/ नियमित आधार पर धारित पद का वेतनमान	आवेदित पद के लिए अपेक्षित धारित अनुभव का उल्लेख करते हुए कर्तव्यों की प्रकृति (विस्तारपूर्वक)

* महत्वपूर्ण: एसीपी/एमएसीपी के तहत स्वीकृत वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अधिकारी के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े होते हैं, अतः इनका उल्लेख न किया जाए। केवल नियमित आधार पर धारित पद के वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान का ही उल्लेख किया जाए। वर्तमान वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के साथ एसीपी/एमएसीपी जहां आवेदनकर्ता द्वारा ऐसे लाभ प्राप्त किए गए हों, का ब्यौरा नीचे दिया जाए;

कार्यालय/संस्थान	एसीपी/एमएसीपी स्कीम के अधीन प्राप्त वेतन, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन	से	तक

8. वर्तमान रोजगार का स्वरूप, अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी या अर्द्ध-स्थायी अथवा स्थायी आधार पर

9. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर है तो कृपया स्पष्ट करें-			
क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि	ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि	ग) आवेदनकर्ता के मूल कार्यालय/संगठन का नाम	घ) मूल संगठन में मौलिक क्षमता पर धारित पद का नाम और वेतन
9.1 नोट: यदि अधिकारी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर है, तो ऐसे/ऐसी अधिकारियों के आवेदन उनके मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग अनापत्ति, सतर्कता अनापत्ति तथा सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र सहित अग्रेषित किए जाएं।			
9.2 नोट: कॉलम 9 (ग) एवं (घ) के तहत सूचना सभी ऐसे मामलों में दी जाए जिसमें एक व्यक्ति ने संवर्ग/संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारित किया हो परंतु अपने मूल संवर्ग/संगठन में अभी भी लियन धारित कर रखा हो।			
10. यदि आवेदनकर्ता द्वारा विगत में कोई पद प्रतिनियुक्ति पर धारित किया गया हो, तो पिछली प्रतिनियुक्ति से लौटने की तिथि एवं अन्य विवरण।			
11. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण: कृपया बताएं कि आप निम्नलिखित में किसके अधीन कार्यरत हैं (संगत कॉलम के समक्ष अपने नियोक्ता का नाम इंगित करें) क) केन्द्र सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्त संगठन घ) सरकारी उपक्रम ङ) विश्वविद्यालय च) अन्य			
12. कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्य कर रहे/रही हैं तथा फीडर गेड में हैं अथवा फीडर गेड के लिए फीडर हैं।			
13. क्या आप संशोधित वेतनमान के अंतर्गत हैं? यदि हां, तो संशोधन की तिथि लिखें तथा संशोधन से पूर्व के वेतनमान का भी उल्लेख करें।			
14. वर्तमान में प्राप्त प्रतिमाह कुल परिलब्धियां			
वेतन मैट्रिक्स में वेतन बैंड/स्तर में मूल वेतन	गेड वेतन	कुल परिलब्धियां	

<p>15. यदि आवेदनकर्ता एक ऐसे संगठन से है, जो केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों का पालन नहीं कर रहा है, तो संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन पर्ची जिसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाए हों, को संलग्न करें:</p>		
मूल वेतन एवं वेतनमान तथा वेतनवृद्धि की दर	मंहगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि (ब्रेक-अप ब्यौरे के साथ)	कुल परिलब्धियां
<p>16. क. आवेदित पद संबंधी उपयुक्त अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसका आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहें। (इसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता (ii) पेशेवर प्रशिक्षण तथा (iii) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित कार्य-अनुभव से अतिरिक्त अनुभव होने के संबंध में भी सूचना दी जा सकती है) (नोट: अपर्याप्त स्थान होने की स्थिति में अलग शीट संलग्न करें)</p>		
<p>16. ख. उपलब्धियां: आवेदनकर्ता से अनुरोध है कि वह निम्नलिखित के संदर्भ में सूचना का उल्लेख करें:</p> <p>(i) अनुसंधान प्रकाशन तथा रिपोर्ट और विशेष परियोजनाएं</p> <p>(ii) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/आधिकारिक प्रशंसा</p> <p>(iii) पेशेवर निकायों/ संस्थानों/ सोसाइटियों से संबद्ध तथा;</p> <p>(iv) स्वयं के नाम पर पंजीकृत अथवा संगठन के लिए अर्जित पेटेन्ट</p> <p>(v) कोई अनुसंधान/अभिनव उपाय जिसको कार्यालय द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है</p> <p>(vi) कोई अन्य सूचना।</p> <p>(नोट: अपर्याप्त स्थान होने की स्थिति में अलग शीट संलग्न करें)</p>		
<p>17. कृपया उल्लेख करें कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन/पुनर्नियोजन आधार पर आवेदन कर रहे/रही हैं।</p> <p># (केवल केंद्र/राज्य सरकारों के अधिकारी "आमेलन" के पात्र हैं। गैर-सरकारी संगठनों के उम्मीदवार केवल अल्पकालिक संविदा के पात्र हैं।)</p> <p># (रिक्ति परिपत्र में "एसटीसी" अथवा "आमेलन" या "पुनर्नियोजन" द्वारा भर्ती का विशेष उल्लेख होने की स्थिति में ही 'एसटीसी'/'आमेलन'/'पुनर्नियोजन' के विकल्प उपलब्ध हैं।)</p>		
<p>18. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के/की हैं?</p>		

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है तथा मुझे इसकी स्पष्ट जानकारी है कि अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव से संबंधित दी गई सूचना के विधिवत समर्थन में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों जारी....

का चयन समिति द्वारा पद पर चयन करने के समय भी मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना/ब्यौरा मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सटीक एवं सही है तथा ऐसी किसी भी तथ्यात्मक सामग्री जिसका मेरे चयन पर प्रभाव पड़ता हो, को दबाया/रोका नहीं गया है।

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

पता _____

तिथि _____

ई-मेल आईडी _____

संपर्क संख्या _____

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन

अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा उपर्युक्त आवेदन में दी गई सूचना/ब्यौरा सटीक तथा सही है। वे रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते/रखती हैं। यदि उनका चयन होता है तो उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

- (i) श्री/श्रीमती/सुश्री _____ के संबंध में कोई सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामला लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- (ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।
- (iii) उनकी गोपनीय रिपोर्ट डोज़ियर मूल रूप में संलग्न है/भारत सरकार में अवर सचिव अथवा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियां संलग्न हैं।
- (iv) उन पर पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है अथवा उन पर पिछले 10 वर्षों के दौरान लगाई गई बड़ी/छोटी शास्ति की सूची संलग्न है। (जैसा भी मामला हो।)

प्रतिहस्ताक्षर

(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के मुहर सहित)

पात्रता, अर्हताएं और अनुभव

1. पदनाम संयुक्त निदेशक (व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण)
2. पदों की संख्या 01 (एक) पूर्वानुमानित
3. जिस तारीख से रिक्त 09-10-2026
4. वर्गीकरण सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय
5. वेतन बैंड वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 ¼ ₹78800-209200/-½
6. प्रशिक्षण भत्ता भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मूल वेतन पर यथानिर्धारित दर पर (वर्तमान में 12 प्रतिशत की दर से)।
7. प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में किसी अन्य संवर्ग-बाह्य धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।
8. पद के लिए कर्तव्य और उत्तरदायित्व
 - (i) केन्द्र/राज्य सरकारों/स्वायत्त निकायों आदि के पर्यवेक्षण एवं प्रचालन स्तर के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्धारित, आयोजित और निर्देशित करना;
 - (ii) प्रशिक्षण सामग्री, विषय अध्ययन, व्यावहारिक अनुभव आदि का सृजन करना; और
 - (iii) प्रशासनिक कार्यों एवं प्रशिक्षण मामलों में संस्थान के निदेशक की सहायता करना।
9. वेतन और भत्ते नियुक्ति पर अधिकारी या तो "प्रतिनियुक्त पद का वेतन" अथवा उसके "मूल विभाग/संवर्ग में प्राप्त मूल वेतन" और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मूल वेतन पर निर्धारित किए गए दर के अनुसार "उस पर प्रशिक्षण भत्ता" प्राप्त करने के/की हकदार होंगे/होंगी। (वर्तमान में प्रशिक्षण भत्ता की दर 12% है।)
10. पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं, अनुभव और पात्रता **प्रतिनियुक्ति:- (और अल्पकालिक संविदा)**

केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकारी विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठन में कार्यरत ऐसे/ऐसी अधिकारी: -

 - (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए/हुई हैं; या
 - (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 (₹67700-208700) अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की है; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते/रखती हों, नामतः -

अनिवार्य :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में मानव संसाधन प्रबंधन या कार्मिक प्रबंधन अथवा प्रबंधन या मनोविज्ञान अथवा औद्योगिक मनोविज्ञान या व्यवहार विज्ञान में स्नातक उपाधि; और

(ii) प्रशासनिक या स्थापना अथवा वित्तीय मामलों में पाँच वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मानव संसाधन प्रबंधन या कार्मिक प्रबंधन अथवा प्रबंधन या मनोविज्ञान अथवा औद्योगिक मनोविज्ञान या व्यवहार विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि;

(ii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक अथवा प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) में प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण की रूपरेखा (डीओटी) में प्रशिक्षित;

(iii) निम्नलिखित में से किन्हीं एक या एकाधिक क्षेत्रों में अनुभव:-

(क) प्रशिक्षण से जुड़े मामलों में एक वर्ष का अनुभव; अथवा

(ख) ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूलों को विकसित करने या अनुदेश या पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में एक वर्ष का अनुभव।

11. आयु

आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि तक आयु छप्पन (56) वर्ष से अधिक न हो।

स.प्र.प्र.सं. में संयुक्त निदेशक (व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण) के पद हेतु आवेदन प्रपत्र
जीवनवृत्त/शैक्षिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव प्रपत्र

1. नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में)	
2. जन्म तिथि (ईसवी सन)	
3. (i) सेवा में प्रवेश की तिथि	
(ii) केंद्र/राज्य सरकार के नियमाधीन सेवानिवृत्ति की तिथि	
4. शैक्षिक अर्हताएं	
5. क्या आप पद हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण करते/करती हैं? (यदि किसी अर्हता को नियमों के अनुसार निर्धारित अर्हता के समकक्ष माना गया है, तो उसके प्राधिकार का उल्लेख करें।)	
अनिवार्य	अनिवार्य
क) अर्हताएं: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में मानव संसाधन प्रबंधन या कार्मिक प्रबंधन अथवा प्रबंधन या मनोविज्ञान अथवा औद्योगिक मनोविज्ञान या व्यवहार विज्ञान में स्नातक उपाधि।	क) अर्हताएं
ख) अनुभव: प्रशासनिक या स्थापना अथवा वित्तीय मामलों में पाँच वर्ष का अनुभव।	ख) अनुभव
वांछनीय:	वांछनीय:
क) (i) अर्हताएं: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मानव संसाधन प्रबंधन या कार्मिक प्रबंधन अथवा प्रबंधन या मनोविज्ञान अथवा औद्योगिक मनोविज्ञान या व्यवहार विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि; (ii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक अथवा प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) में प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण की रूपरेखा (डीओटी) में प्रशिक्षित;	क) अर्हताएं
अनुभव: (i) प्रशिक्षण से जुड़े मामलों में एक वर्ष का अनुभव; अथवा (ii) ऑनलाइन प्रशिक्षण माँड्यूलों को विकसित करने या अनुदेश या पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में एक वर्ष का अनुभव।	ख) अनुभव

5.1 नोट: परिपत्र के जारी होने तथा रोजगार समाचार में विज्ञापन के जारी होने के समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा भर्ती नियमों में यथा उल्लिखित अनिवार्य एवं वांछनीय अर्हताओं को इंगित करने के लिए यह कॉलम बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

5.2 स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हताओं के विषय में आवेदनकर्ता द्वारा वैकल्पिक/मुख्य विषयों एवं सहायक विषयों को इंगित किया जाए।

6. कृपया स्पष्ट रूप से लिखें कि क्या आपके द्वारा ऊपर के कॉलमों में दर्ज की गई प्रविष्टियों के अनुसार, आप पद हेतु अपेक्षित आवश्यक अर्हताएं एवं कार्य अनुभव पूर्ण करते/करती हैं।

6.1 नोट: आदाता विभाग द्वारा आवेदित पद के संदर्भ में आवेदनकर्ता द्वारा धारित (जैसा कि जीवन वृत्त में दर्शाया गया है) संगत आवश्यक अर्हता/ कार्य अनुभव की पुष्टि करते हुए अपनी विशिष्ट टिप्पणियां/विचार प्रदान किया जाना होगा।

7. रोजगार का कालक्रमबद्ध विवरण दें। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है, तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित कर एक अलग शीट संलग्न करें।

कार्यालय/संस्थान	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	*वेतन मैट्रिक्स के अंतर्गत लेवल/ वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/ नियमित आधार पर धारित पद का वेतनमान	आवेदित पद के लिए अपेक्षित धारित अनुभव का उल्लेख करते हुए कर्तव्यों की प्रकृति (विस्तारपूर्वक)

* महत्वपूर्ण: एसीपी/एमएसीपी के तहत स्वीकृत वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अधिकारी के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े होते हैं, अतः इनका उल्लेख न किया जाए। केवल नियमित आधार पर धारित पद के वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान का ही उल्लेख किया जाए। वर्तमान वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के साथ एसीपी/एमएसीपी जहां आवेदनकर्ता द्वारा ऐसे लाभ प्राप्त किए गए हों, का ब्यौरा नीचे दिया जाए;

कार्यालय/संस्थान	एसीपी/एमएसीपी स्कीम के अधीन प्राप्त वेतन, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन	से	तक

8. वर्तमान रोजगार का स्वरूप, अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी या अर्द्ध-स्थायी अथवा स्थायी आधार पर

9. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर है तो कृपया स्पष्ट करें-

क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि	ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि	ग) आवेदनकर्ता के मूल कार्यालय/संगठन का नाम	घ) मूल संगठन में मौलिक क्षमता पर धारित पद का नाम और वेतन

<p>9.1 नोट: यदि अधिकारी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर है, तो ऐसे/ऐसी अधिकारियों के आवेदन उनके मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग अनापत्ति, सतर्कता अनापत्ति तथा सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र सहित अग्रेषित किए जाएं।</p> <p>9.2 नोट: कॉलम 9 (ग) एवं (घ) के तहत सूचना सभी मामलों में दी जाए जहां एक व्यक्ति ने संवर्ग/संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारित किया हो परंतु अपने मूल संवर्ग/संगठन में अभी भी लियन धारित कर रखा हो।</p>		
<p>10. यदि आवेदनकर्ता द्वारा विगत में कोई पद प्रतिनियुक्ति पर धारित किया गया हो, तो पिछली प्रतिनियुक्ति से लौटने की तिथि एवं अन्य विवरण।</p>		
<p>11. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण: कृपया बताएं कि आप निम्नलिखित में किसके अधीन कार्यरत हैं (संगत कॉलम के समक्ष अपने नियोक्ता का नाम इंगित करें)</p> <p>क) केन्द्र सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्त संगठन घ) सरकारी उपक्रम ङ) विश्वविद्यालय च) अन्य</p>		
<p>12. कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्य कर रहे/रही हैं तथा फीडर ग्रेड में हैं अथवा फीडर ग्रेड के लिए फीडर हैं।</p>		
<p>13. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो संशोधन की तिथि लिखें तथा संशोधन से पूर्व के वेतनमान का भी उल्लेख करें।</p>		
<p>14. वर्तमान में प्राप्त प्रतिमाह कुल परिलब्धियां</p>		
वेतन मैट्रिक्स में वेतन बैंड/स्तर में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां
<p>15. यदि आवेदनकर्ता एक ऐसे संगठन से है, जो केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों का पालन नहीं कर रहा है, तो संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन पर्ची जिसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाए हों, को संलग्न करें:</p>		
मूल वेतन एवं वेतनमान तथा वेतनवृद्धि की दर	मंहगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि	कुल परिलब्धियां

	(ब्रेक-अप ब्यौरे के साथ)	
<p>16. क. आवेदित पद संबंधी उपयुक्त अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसका आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहें। (इसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा (iii) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित कार्य-अनुभव से अतिरिक्त अनुभव होने के संबंध में भी सूचना दी जा सकती है) (नोट: अपर्याप्त स्थान होने की स्थिति में अलग शीट संलग्न करें)</p>		
<p>16. ख. उपलब्धियां: आवेदनकर्ता से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के संदर्भ में सूचना का उल्लेख करें:</p> <p>(i) अनुसंधान प्रकाशन तथा रिपोर्ट और विशेष परियोजनाएं</p> <p>(ii) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/आधिकारिक प्रशंसा</p> <p>(iii) व्यावसायिक निकायों/ संस्थानों/ सोसाइटियों से संबद्ध तथा;</p> <p>(iv) स्वयं के नाम पर पंजीकृत अथवा संगठन के लिए अर्जित पेटेन्ट</p> <p>(v) कोई अनुसंधान/अभिनव उपाय जिसको कार्यालय द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है</p> <p>(vi) कोई अन्य सूचना।</p> <p>(नोट: अपर्याप्त स्थान होने की स्थिति में अलग शीट संलग्न करें)</p>		
<p>17. कृपया उल्लेख करें कि क्या आप प्रतिनियुक्त (आईएसटीसी)/आमेलन/पुनर्नियोजन आधार पर आवेदन कर रहे/रही हैं। # (केवल केंद्र/राज्य सरकारों के अधिकारी "आमेलन" के पात्र हैं। गैर-सरकारी संगठनों के उम्मीदवार केवल अल्पावधि संविदा के पात्र हैं।)</p>		
<p># (रिक्ति परिपत्र में "एसटीसी" अथवा "आमेलन" या "पुनर्नियोजन" द्वारा भर्ती का विशेष उल्लेख होने की स्थिति में ही 'एसटीसी'/'आमेलन'/'पुनर्नियोजन' के विकल्प उपलब्ध हैं।)</p>		
<p>18. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के/की हैं?</p>		

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है तथा मुझे इसकी स्पष्ट जानकारी है कि अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव से संबंधित दी गई सूचना के विधिवत समर्थन में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का चयन समिति द्वारा पद पर चयन करने के समय भी मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना/ब्यौरा

मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सटीक एवं सही है तथा ऐसी किसी भी तथ्यात्मक सामग्री जिसका मेरे चयन पर प्रभाव पड़ता हो, को दबाया/रोका नहीं गया है।

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

पता _____

तिथि _____

ई-मेल आईडी _____

संपर्क संख्या _____

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन

अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा उपर्युक्त आवेदन में दी गई सूचना/ब्यौरा सटीक तथा सही है। वे रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते/रखती हैं। यदि उनका चयन होता है तो उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

- (i) श्री/श्रीमती/सुश्री _____ के संबंध में कोई सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामला लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- (ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।
- (iii) उनकी गोपनीय रिपोर्ट डोज़ियर मूल रूप में संलग्न है/भारत सरकार में अवर सचिव अथवा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियां संलग्न हैं।
- (iv) उन पर पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है अथवा उन पर पिछले 10 वर्षों के दौरान लगाई गई बड़ी/छोटी शास्ति की सूची संलग्न है। (जैसा भी मामला हो।)

प्रतिहस्ताक्षर

(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के मुहर सहित)

अनुलग्नक- I (ग)

1. पदनाम : उप निदेशक (अर्थशास्त्र और योजना)
2. पदों की संख्या : 01 (एक)
3. जिस तिथि से पद रिक्त है : 01.05.2020
4. वर्गीकरण : सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय
5. वेतन बैंड : वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (₹67700-₹208700)
6. प्रशिक्षण भत्ता : भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मूल वेतन संबंधी यथानिर्धारित दर (वर्तमान में 12 प्रतिशत की दर से) के अनुसार।
7. प्रतिनियुक्ति की अवधि : केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व किसी अन्य संवर्ग-बाह्य धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित वर्तमान प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।
8. पद से जुड़े कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व : (i) केन्द्र/राज्य सरकारों/स्वायत्त निकायों आदि के पर्यवेक्षण एवं प्रचालन स्तर के/ की अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्धारित, आयोजित और निर्देशित करना;
(ii) प्रशिक्षण सामग्री, मामला अध्ययन, व्यावहारिक अनुभव आदि तैयार करना/का प्रस्तुतिकरण; और
(iii) प्रशासनिक कार्यों एवं प्रशिक्षण मामलों में संस्थान के निदेशक की सहायता करना।
9. वेतन एवं भत्ते : नियुक्ति पर अधिकारी या तो "प्रतिनियुक्त पद का वेतन" अथवा उसके "मूल विभाग/संवर्ग में प्राप्त मूल वेतन" और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मूल वेतन पर निर्धारित किए गए दर के अनुसार "उस पर प्रशिक्षण भत्ता" प्राप्त करने के/की हकदार होंगे/होंगी। (वर्तमान में प्रशिक्षण भत्ता की दर 12% है।)
10. पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं, अनुभव और पात्रता : प्रतिनियुक्ति (और अल्पकालिक संविदा) द्वारा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों के ऐसे/ऐसी अधिकारी-
(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए/हुई हों; अथवा
(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में लेवल 10 अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की है; और
(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते/रखती हों:
अनिवार्य:
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि; और

- (ii) आर्थिक नीति (और योजना तथा वित्तीय प्रबंधन) के क्षेत्र में तीन वर्ष और केंद्र प्रायोजित या क्षेत्रक योजनाओं से जुड़ा कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अर्थशास्त्र में या कार्य प्रशासन (वित्त) में स्नातकोत्तर उपाधि;
- (ii) आर्थिक नीति, वित्तीय प्रबंधन या योजना में अध्यापन अथवा प्रशिक्षण का दो वर्ष का अनुभव;
- (iii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक अथवा प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) में प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण की रूपरेखा (डीओटी) में प्रशिक्षित;
- (iv) निम्नलिखित में से किन्हीं एक या एकाधिक क्षेत्रों में अनुभव:-
- (क) प्रशिक्षण से जुड़े मामलों में एक वर्ष का अनुभव;
- (ख) वेतन लेवल 10 अथवा उससे ऊपर के लेवल में प्रशासनिक या स्थापना या वित्तीय मामलों में दो वर्ष का अनुभव।
- (ग) वेतन लेवल 10 अथवा उससे ऊपर के लेवल में एकीकृत वित्तीय प्रभाग या प्रशासनिक सतर्कता में एक वर्ष का अनुभव।
- (घ) ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूलों को विकसित करने या अनुदेश या पाठ्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करने में एक वर्ष का अनुभव।

11. आयु

आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि तक आयु छप्पन (56) वर्ष से अधिक न हो।

स.प्र.प्र.सं. में उप निदेशक (अर्थशास्त्र और योजना) के पद के लिए आवेदन प्रपत्र
जीवनवृत्त/शैक्षिक अभिलेख

1. नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में)	
2. जन्म तिथि (ईसवी सन् में)	
3. (i) सेवा में प्रवेश की तिथि	
(ii) केंद्र/राज्य सरकार के नियमाधीन सेवानिवृत्ति की तिथि	
4. शैक्षिक अर्हताएं	
5. क्या आप पद हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण करते/करती हैं? (यदि किसी अर्हता को नियमों के अनुसार निर्धारित अर्हता के समकक्ष माना गया है, तो उसके प्राधिकार का उल्लेख करें।)	
विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में यथा उल्लिखित अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित की जाने वाली अर्हताएं/अनुभव
(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए/हुई हैं; अथवा, (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में लेवल 10 अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की है।	
अनिवार्य	अनिवार्य
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि; और	
(ii) आर्थिक नीति (और योजना तथा वित्तीय प्रबंधन) के क्षेत्र में तीन वर्ष और केंद्र प्रायोजित या क्षेत्रक योजनाओं से जुड़ा कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।	
वांछनीय	वांछनीय
(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अर्थशास्त्र में या कार्य प्रशासन (वित्त) में स्नातकोत्तर उपाधि।	
(ii) आर्थिक नीति, वित्तीय प्रबंधन या योजना में अध्यापन अथवा प्रशिक्षण का दो वर्ष का अनुभव;	
(iii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक अथवा प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) में प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण की रूपरेखा (डीओटी) में प्रशिक्षित;	
(iv) निम्नलिखित में से किन्हीं एक या एकाधिक क्षेत्रों में अनुभव:- (क) प्रशिक्षण से जुड़े मामलों में एक वर्ष का अनुभव;	

(ख) वेतन लेवल 10 अथवा उससे ऊपर के लेवल में प्रशासनिक या स्थापना या वित्तीय मामलों में दो वर्ष का अनुभव।	
(ग) वेतन लेवल 10 अथवा उससे ऊपर के लेवल में एकीकृत वित्तीय प्रभाग या प्रशासनिक सतर्कता में एक वर्ष का अनुभव।	
(घ) ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूलों को विकसित करने या अनुदेश या पाठ्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करने में एक वर्ष का अनुभव।	

5.1 नोट: परिपत्र के जारी होने तथा रोजगार समाचार में विज्ञापन के जारी होने के समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा भर्ती नियमों में यथा उल्लिखित अनिवार्य एवं वांछनीय अर्हताओं को इंगित करने के लिए इस कॉलम में अतिरिक्त विवरण दिया जाना अपेक्षित है।

5.2 स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हताओं के विषय में आवेदनकर्ता द्वारा वैकल्पिक/मुख्य विषयों एवं सहायक विषयों को इंगित किया जाए।

6. कृपया स्पष्ट रूप से लिखें कि क्या आपके द्वारा ऊपर के कॉलमों में दर्ज की गई प्रविष्टियों के अनुसार, आप पद हेतु अपेक्षित आवश्यक अर्हताएं एवं कार्य अनुभव पूर्ण करते/करती हैं।

6.1 नोट: आदाता विभाग द्वारा आवेदित पद के संदर्भ में आवेदनकर्ता द्वारा धारित (जैसा कि जीवन वृत्त में दर्शाया गया है) संगत आवश्यक अर्हता/ कार्य अनुभव की पुष्टि करते हुए अपनी विशिष्ट टिप्पणियां/विचार प्रदान किया जाना होगा।

7. रोजगार का कालक्रमबद्ध विवरण दें। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है, तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित कर एक अलग शीट संलग्न करें।

कार्यालय/संस्थान	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	*वेतन मैट्रिक्स के अंतर्गत लेवल/ वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/ नियमित आधार पर धारित पद का वेतनमान	आवेदित पद के लिए अपेक्षित धारित अनुभव का उल्लेख करते हुए कर्तव्यों की प्रकृति (विस्तारपूर्वक)

* महत्वपूर्ण: एसीपी/एमएसीपी के तहत स्वीकृत वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अधिकारी के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े होते हैं, अतः इनका उल्लेख न किया जाए। केवल नियमित आधार पर धारित पद के वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान का ही उल्लेख किया जाए। वर्तमान वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के साथ एसीपी/एमएसीपी जहां आवेदनकर्ता द्वारा ऐसे लाभ आहरित किए गए हों, का ब्यौरा नीचे दिया जाए;

कार्यालय/संस्थान	एसीपी/एमएसीपी स्कीम के अधीन आहरित वेतन, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन	से	तक

8. वर्तमान रोजगार का स्वरूप, अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी या अर्द्ध-स्थायी अथवा स्थायी आधार पर

9. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर है तो कृपया स्पष्ट करें-

क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि	ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि	ग) आवेदनकर्ता के मूल	घ) मूल संगठन में मौलिक क्षमता पर
----------------------------	---	----------------------	----------------------------------

	कार्यालय/संगठन का नाम	धारित पद का नाम और वेतन
<p>9.1 नोट: यदि अधिकारी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर हैं, तो ऐसे/ऐसी अधिकारियों के आवेदन उनके मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग अनापत्ति, सतर्कता अनापत्ति तथा सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र सहित अग्रोषित किए जाएं।</p> <p>9.2 नोट: कॉलम 9 (ग) एवं (घ) के तहत सूचना सभी मामलों में दी जाए जहां आवेदनकर्ता ने संवर्ग/संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारित किया हो परंतु अपने मूल संवर्ग/संगठन में अभी भी लियन धारित कर रखा/रखी हो।</p>		
10.	यदि आवेदनकर्ता द्वारा विगत में कोई पद प्रतिनियुक्ति पर धारित किया गया हो, तो पिछली प्रतिनियुक्ति से लौटने की तिथि एवं अन्य विवरण।	
11.	<p>वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण: कृपया बताएं कि आप निम्नलिखित में किसके अधीन कार्यरत हैं (संगत कॉलम के समक्ष अपने नियोक्ता का नाम इंगित करें)</p> <p>i. केन्द्र सरकार ii. राज्य सरकार iii. स्वायत्त संगठन iv. सरकारी उपक्रम v. विश्वविद्यालय vi. अन्य</p>	
12.	कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्य कर रहे/रही हैं तथा फीडर ग्रेड में हैं अथवा फीडर ग्रेड के लिए फीडर हैं।	
13.	क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो संशोधन की तिथि लिखें तथा संशोधन से पूर्व के वेतनमान का भी उल्लेख करें।	
14. वर्तमान में प्रतिमाह प्राप्त कुल परिलब्धियां		
वेतन मैट्रिक्स में वेतन बैंड/लेवल में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां
15. यदि आवेदनकर्ता एक ऐसे संगठन से है, जो केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों का पालन नहीं कर रहा है, तो संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन पर्ची जिसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाए हों, को संलग्न करें:		
वेतनमान सहित मूल वेतन तथा वेतनवृद्धि की दर	मंहगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि (ब्रेक-अप ब्यौरे के साथ)	कुल परिलब्धियां
16. क. आवेदित पद संबंधी उपयुक्त अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसका आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहें। (इसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएं (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा (iii) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित कार्य-अनुभव से अतिरिक्त अनुभव होने के संबंध में भी सूचना दी जा सकती है) (नोट: अपर्याप्त स्थान होने की स्थिति में अलग शीट संलग्न करें)		

<p>16. ख. उपलब्धियां: आवेदनकर्ता से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के संदर्भ में सूचना प्रदान करें:</p> <p>(i) अनुसंधान प्रकाशन तथा रिपोर्ट और विशेष परियोजनाएं (ii) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/आधिकारिक प्रशंसा (iii) व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/सोसाइटियों से संबद्ध तथा; (iv) स्वयं के नाम पर पंजीकृत अथवा संगठन के लिए अर्जित पेटेन्ट (v) कोई अनुसंधान/अभिनव उपाय जिसको कार्यालय द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है (vi) कोई अन्य सूचना (नोट: अपर्याप्त स्थान होने की स्थिति में अलग शीट संलग्न करें)</p>											
<p>17. कृपया उल्लेख करें कि क्या आप प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर रहे/रही हैं या अल्पवधि की संविदा के लिए।</p>											
<p>18. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के/की हैं?</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है तथा मुझे इसकी स्पष्ट जानकारी है कि अनिवार्य अहंता/कार्य अनुभव से संबंधित शैक्षिक अभिलेख में दी गई सूचना के विधिवत समर्थन में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का चयन समिति द्वारा पद पर चयन करने के समय भी मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना/ब्यौरा मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सटीक एवं सही हैं तथा ऐसी किसी भी तथ्यात्मक सामग्री जिसका मेरे चयन पर प्रभाव पड़ता हो, को दबाया/रोका नहीं गया है।

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

पता _____

तिथि _____

ई-मेल आईडी _____

संपर्क संख्या _____

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन

अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा उपर्युक्त आवेदन में दी गई सूचना/ब्यौरा सटीक तथा सही है। वे रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते/रखती हैं। यदि उनका चयन होता है तो उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

(i) श्री/श्रीमती/सुश्री _____ के संबंध में कोई सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामला लम्बित/विचाराधीन नहीं है।

(ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।

(iii) उनकी गोपनीय रिपोर्ट डोज़ियर मूल रूप में संलग्न है/भारत सरकार में अवर सचिव अथवा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियां संलग्न हैं।

(iv) उन पर पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है अथवा उन पर पिछले 10 वर्षों के दौरान लगाई गई बड़ी/छोटी शास्ति की सूची संलग्न है। (जैसा भी मामला हो।)

प्रतिहस्ताक्षर

(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के मुहर सहित)

अनुलग्नक-1 (घ)

1. पदनाम : सहायक निदेशक (कार्यालय प्रबंधन)
2. पदों की संख्या : 01 (एक)
3. जिस तिथि से पद रिक्त है : 07.04.2026
4. वर्गीकरण : सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय
5. वेतन बैंड : वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 (₹47600/-से-₹151100/-तक)
6. प्रशिक्षण भत्ता : भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मूल वेतन संबंधी यथानिर्धारित दर (वर्तमान में 12 प्रतिशत की दर) के अनुसार।
7. प्रतिनियुक्ति की अवधि : केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व किसी अन्य संवर्ग-बाह्य धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित वर्तमान प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया **तीन वर्षों** से अधिक नहीं होगी।
8. पद से जुड़े कर्तव्य और उत्तरदायित्व : (i) केंद्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि के/की वरिष्ठ/पर्यवेक्षण एवं प्रचालन स्तर के/की अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्धारित, आयोजित और निदेशित करना।
(ii) प्रशिक्षण सामग्री, मामला अध्ययन आदि को विकसित करना।
(iii) ई-सामग्री, निर्देश की रूपरेखा एवं पाठ्यक्रम की रूपरेखा विकसित करना।
(iv) प्रशिक्षण सत्र, अनुसंधान संबंधी गतिविधियां एवं परामर्श कार्य का संचालन करना।
(v) प्रशासन और प्रशिक्षण से संबंधित मामलों में, जैसा भी मामला सौंपा जाए, संस्थान के निदेशक की सहायता करना।
9. वेतन एवं भत्ते : नियुक्ति पर अधिकारी या तो "प्रतिनियुक्त पद का वेतन" अथवा उसके "मूल विभाग/संवर्ग में प्राप्त मूल वेतन" और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मूल वेतन पर निर्धारित किए गए दर के अनुसार "उस पर प्रशिक्षण भत्ता" प्राप्त करने के/की हकदार होंगे/होंगी। (वर्तमान में प्रशिक्षण भत्ता की दर 12% है।)

10. पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं, अनुभव प्रतिनियुक्ति: केन्द्र सरकार में कार्यरत ऐसे/ऐसी अधिकारी-
और पात्रता

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए/हुई हैं; अथवा

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 (₹44900-142400) अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पाँच वर्षों की सेवा की है; और

ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते/रखती हों, नामतः -

अनिवार्य:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि;

(ii) भारत सरकार में अनुसचिवीय पदों पर वित्तीय मामलों पर सामान्य प्रशासन या स्थापना में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानों से लोक प्रशासन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि;

(ii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक अथवा प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) में प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण की रूपरेखा (डीओटी) में प्रशिक्षित;

(iii) ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूलों को विकसित करने या अनुदेश या पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में एक वर्ष का अनुभव।

11. आयु

आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि तक आयु छप्पन (56) वर्ष से अधिक न हो।

अनुलग्नक-II (घ)

**स.प्र.प्र.सं. में सहायक निदेशक (कार्यालय प्रबंधन) के पद हेतु आवेदन प्रपत्र
जीवनवृत्त/शैक्षिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव प्रपत्र**

1. नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में)	
2. जन्म तिथि (ईसवी सन्)	
3. (i) सेवा में प्रवेश की तिथि	
(ii) केंद्र/राज्य सरकार के नियमाधीन सेवानिवृत्ति की तिथि	
4. शैक्षिक अर्हताएं	
5. क्या आप पद हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण करते/करती हैं? (यदि किसी अर्हता को नियमों के अनुसार निर्धारित अर्हता के समकक्ष माना गया है, तो उसके प्राधिकार का उल्लेख करें।)	
विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित अर्हताएं/अनुभव
क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए/हुई हैं; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 (₹44900- 142400) अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में पाँच वर्षों की सेवा की है; और	
अनिवार्य	अनिवार्य
क) अर्हता:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि;	क) अर्हता
ख) अनुभव:- भारत सरकार में अनुसचिवीय पदों पर वित्तीय मामलों पर सामान्य प्रशासन या स्थापना में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।	ख) अनुभव
वांछनीय:	वांछनीय:
अर्हता:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानों से लोक प्रशासन अथवा मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि;	अर्हता

(ii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षक या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक अथवा प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) में प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) या प्रशिक्षण की रूपरेखा (डीओटी) में प्रशिक्षित;	
अनुभव:- ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूलों को विकसित करने या अनुदेश या पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में एक वर्ष का अनुभव।	अनुभव

5.1 नोट: परिपत्र के जारी होने तथा रोजगार समाचार में विज्ञापन के जारी होने के समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा भर्ती नियमों में यथा उल्लिखित अनिवार्य एवं वांछनीय अर्हताओं को इंगित करने के लिए यह कॉलम बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

5.2 स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हताओं के विषय में आवेदनकर्ता द्वारा वैकल्पिक/मुख्य विषयों एवं सहायक विषयों को इंगित किया जाए।

6. कृपया स्पष्ट रूप से लिखें कि क्या आपके द्वारा ऊपर के कॉलमों में दर्ज की गई प्रविष्टियों के अनुसार, आप पद हेतु अपेक्षित आवश्यक अर्हताएं एवं कार्य अनुभव पूर्ण करते/करती हैं।	
--	--

6.1 नोट: आदाता विभाग द्वारा आवेदित पद के संदर्भ में आवेदनकर्ता द्वारा धारित (जैसा कि जीवन वृत्त में दर्शाया गया है) संगत आवश्यक अर्हता/ कार्य अनुभव की पुष्टि करते हुए अपनी विशिष्ट टिप्पणियां/विचार प्रदान किया जाना होगा।

7. रोजगार का कालक्रमबद्ध विवरण दें। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है, तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित कर एक अलग शीट संलग्न करें।

कार्यालय/संस्थान	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	*वेतन मैट्रिक्स के अंतर्गत लेवल/ वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/ नियमित आधार पर धारित पद का वेतनमान	आवेदित पद के लिए अपेक्षित धारित अनुभव का उल्लेख करते हुए कर्तव्यों की प्रकृति (विस्तारपूर्वक)

* महत्वपूर्ण: एसीपी/एमएसीपी के तहत स्वीकृत वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अधिकारी के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े होते हैं, अतः इनका उल्लेख न किया जाए। केवल नियमित आधार पर धारित पद के वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान का ही उल्लेख किया जाए। वर्तमान वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के साथ एसीपी/एमएसीपी जहां आवेदनकर्ता द्वारा ऐसे लाभ प्राप्त किए गए हों, का ब्यौरा नीचे दिया जाए;

कार्यालय/संस्थान	एसीपी/एमएसीपी स्कीम के अधीन प्राप्त वेतन, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन	से	तक

8. वर्तमान रोजगार का स्वरूप, अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी या अर्द्ध-स्थायी अथवा स्थायी आधार पर			
9. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर है तो कृपया स्पष्ट करें-			
क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि	ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि	ग) आवेदनकर्ता के मूल कार्यालय/संगठन का नाम	घ) मूल संगठन में मौलिक क्षमता पर धारित पद का नाम और वेतन
9.1 नोट: यदि अधिकारी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर है, तो ऐसे/ऐसी अधिकारियों के आवेदन उनके मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग अनापत्ति, सतर्कता अनापत्ति तथा सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र सहित अग्रेषित किए जाएं।			
9.2 नोट: कॉलम 9 (ग) एवं (घ) के तहत सूचना सभी ऐसे मामलों में दी जाए जिसमें एक व्यक्ति ने संवर्ग/संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारित किया हो परंतु अपने मूल संवर्ग/संगठन में अभी भी लियन धारित कर रखा हो।			
10. यदि आवेदनकर्ता द्वारा विगत में कोई पद प्रतिनियुक्ति पर धारित किया गया हो, तो पिछली प्रतिनियुक्ति से लौटने की तिथि एवं अन्य विवरण।			
11. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण: कृपया बताएं कि आप निम्नलिखित में किसके अधीन कार्यरत हैं (संगत कॉलम के समक्ष अपने नियोक्ता का नाम इंगित करें) क) केन्द्र सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्त संगठन घ) सरकारी उपक्रम ड) विश्वविद्यालय च) अन्य			
12. कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्य कर रहे/रही हैं तथा फीडर ग्रेड में हैं अथवा फीडर ग्रेड के लिए फीडर हैं।			
13. क्या आप संशोधित वेतनमान के अंतर्गत हैं? यदि हां, तो संशोधन की तिथि लिखें तथा संशोधन से पूर्व के वेतनमान का भी उल्लेख करें।			
14. वर्तमान में प्राप्त प्रतिमाह कुल परिलब्धियां			
वेतन मैट्रिक्स में वेतन बैंड/स्तर में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां	

<p>15. यदि आवेदनकर्ता एक ऐसे संगठन से है, जो केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों का पालन नहीं कर रहा है, तो संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन पर्ची जिसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाएँ हों, को संलग्न करें:</p>		
मूल वेतन एवं वेतनमान तथा वेतनवृद्धि की दर	मंहगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि (ब्रेक-अप ब्यौरे के साथ)	कुल परिलब्धियां
<p>16. क. आवेदित पद संबंधी उपयुक्त अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसका आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहें। (इसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता (ii) पेशेवर प्रशिक्षण तथा (iii) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित कार्य-अनुभव से अतिरिक्त अनुभव होने के संबंध में भी सूचना दी जा सकती है) . (नोट: अपर्याप्त स्थान होने की स्थिति में अलग शीट संलग्न करें)</p>		
<p>16. ख. उपलब्धियां: आवेदनकर्ता से अनुरोध है कि वह निम्नलिखित के संदर्भ में सूचना का उल्लेख करें: (i) अनुसंधान प्रकाशन तथा रिपोर्ट और विशेष परियोजनाएं (ii) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/आधिकारिक प्रशंसा (iii) पेशेवर निकायों/ संस्थानों/ सोसाइटियों से संबद्ध तथा; (iv) स्वयं के नाम पर पंजीकृत अथवा संगठन के लिए अर्जित पेटेन्ट (v) कोई अनुसंधान/अभिनव उपाय जिसको कार्यालय द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है (vi) कोई अन्य सूचना। (नोट: अपर्याप्त स्थान होने की स्थिति में अलग शीट संलग्न करें)</p>		
<p>17. कृपया उल्लेख करें कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन/पुनर्नियोजन आधार पर आवेदन कर रहे/रही हैं। # (केवल केंद्र/राज्य सरकारों के अधिकारी "आमेलन" के पात्र हैं। गैर-सरकारी संगठनों के उम्मीदवार केवल अल्पकालिक संविदा के पात्र हैं।) # (रिक्ति परिपत्र में "एसटीसी" अथवा "आमेलन" या "पुनर्नियोजन" द्वारा भर्ती का विशेष उल्लेख होने की स्थिति में ही 'एसटीसी'/'आमेलन'/'पुनर्नियोजन' के विकल्प उपलब्ध हैं।)</p>		
<p>18. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के/की हैं?</p>		

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है तथा मुझे इसकी स्पष्ट जानकारी है कि अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव से संबंधित दी गई सूचना के विधिवत समर्थन में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों

का चयन समिति द्वारा पद पर चयन करने के समय भी मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना/ब्यौरा मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सटीक एवं सही है तथा ऐसी किसी भी तथ्यात्मक सामग्री जिसका मेरे चयन पर प्रभाव पड़ता हो, को दबाया/रोका नहीं गया है।

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

पता _____

तिथि _____

ई-मेल _____

संपर्क संख्या _____

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन

अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा उपर्युक्त आवेदन में दी गई सूचना/ब्योरा सटीक तथा सही है। वे रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते/रखती हैं। यदि उनका चयन होता है तो उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

- (i) श्री/श्रीमती/सुश्री _____ के संबंध में कोई सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामला लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- (ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।
- (iii) उनकी गोपनीय रिपोर्ट डोज़ियर मूल रूप में संलग्न है/भारत सरकार में अवर सचिव अथवा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियां संलग्न हैं।
- (iv) उन पर पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है अथवा उन पर पिछले 10 वर्षों के दौरान लगाई गई बड़ी/छोटी शास्ति की सूची संलग्न है। (जैसा भी मामला हो।)

प्रतिहस्ताक्षर

(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के मुहर सहित)



FILE NO:A-35020/4/2023-ESTABLISHMENT (C.No. 3840)

भारत सरकार / Government of India

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान

Institute of Secretariat Training & Management

(एक आईएसओ 9001:2015 संस्था / AN ISO 9001:2015 INSTITUTION)

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग / Department of Personnel & Training

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

Filling up of various faculty posts on deputation basis in Institute of Secretariat Training & Management, New Delhi - reg.

Applications are invited for filling up the following faculty posts on deputation basis in ISTM. Details of the posts are as under:-

S.No.	Name of the Post	Number of vacancy	Pay level in the Pay Matrix	Eligible Category
(i)	Additional Director	01	Level-13 in the pay matrix (123100-215900)	Officers under the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or autonomous or statutory organisations.
(ii)	Joint Director (Behavioural Training)	01	Level 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200).	Officers under the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or public sector undertakings or Government Universities or recognised research institutes or statutory or autonomous organisations.
(iii)	Deputy Director (Economics and Planning).	01	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700)	Officers under the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or autonomous or statutory organisations.
(iv)	Assistant Director (Office Management)	01	Level-08 (Rs. 47600-151,100)	Officers under Central Government.

- The officer on appointment will be entitled to draw either "the pay of deputation post" or his/her "basic pay drawn in his parent Department/Cadre plus training allowance thereon" at such rate on basic pay as determined by Government of India from time to time (at present training allowance is 12%).
- Details of eligibility conditions and the prescribed proforma in which applications should be sent may be downloaded from the ISTM website: https://www.istm.gov.in/home/other_circular.
- Applications of only such officers/candidates will be considered which are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in Quadruplicate) in the proforma format as given in **Annexure-II (A), (B), (C), (D)** of the detailed Vacancy Circular, (ii) Cadre Clearance, (iii) Vigilance Clearance and (iv) Five years attested APAR. **Candidates who have already applied for the post of Additional Director in accordance with vacancy circular published in Employment News/Rozgar Samachar dated 27.12.2025 need not apply again, until and unless there is any change of experience, level etc which may be beneficial and relevant for the suitability for the post, as their candidature will be duly considered.**
- The applications of suitable and eligible officers and who can be spared immediately in the event of selection may be sent to **Shri Ram Bhagat Kushwaha, Under Secretary (ISTM Section) Training Division, Block-IV, 3rd Floor, JNU (OLD) Campus, New Delhi-110067** within a period of 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News/ Rozgar Samachar.

EN 5/14

UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
HMIR.

Website: www.iust.ac.in

02 OF 2026

e candidates for
Architecture, Islamic
ir.o. of
posts

Category

UR

Ph.D. Degree in

r equivalent to B.
ecture or in allied
num 60 per centaching/ research/
full-time teaching
Nineteen years of

24-04-2026.

18-05-2026
(4:30 PM).25-05-2026
(5:00 PM).Sd/-
Registrar

EN 5/97

आधिकारण
Authority

Waterways

01 (U.P.)
474050



FILE NO:A-35020/04/2023-ESTABLISHMENT (C.No. 3840)

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान

INSTITUTE OF SECRETARIAT TRAINING & MANAGEMENT

(एक आईएसओ 9001:2015 संस्था / AN ISO 9001:2015 INSTITUTION)

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग / DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय / MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

Date: 04th May, 2026

To (through DoPT's & ISTM's website/e-mail)

1. The Secretary of all Ministries/ Departments of Government of India
(As per standard list)
2. The Chief Secretaries of All State Government and recognized Research Institutions/ Universities.
(As per standard list)
3. The Heads of Public Sector Undertakings (PSUs)/recognized Research Institutions or Universities or Semi-Govt. or Statutory or Autonomous Organizations.

Subject: - Filling up of various faculty posts on deputation basis in Institute of Secretariat Training & Management, New Delhi – reg.

Madam/Sir,

I am directed to say that the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), a Central Training Institute under Department of Personnel and Training (DoPT), Government of India (GoI), New Delhi proposes to fill up the following faculty posts on deputation basis. The details of the posts are as under: -

S.No.	Name of the Post	Number of vacancy	Pay level in the pay Matrix	Eligible Category
(i)	Additional Director	01	Level-13 in the pay matrix (123100-215900)	Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or autonomous or statutory organisations.
(ii)	Joint Director (Behavioural Training)	01	Level 12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or Government Universities or recognised research institutes or statutory or autonomous organisations.
(iii)	Deputy Director (Economics and Planning).	01	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700)	Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or autonomous or statutory organisations.
(iv)	Assistant Director (Office Management)	01	Level-08 (Rs.47600-151100)	Officers under Central Government.

2. The officer on appointment will be entitled to draw either "the pay of deputation post" or his/her "basic pay drawn in his parent Department/ Cadre plus training allowance thereon" at such rate on basic pay as determined by Government of India from time to time (at present training allowance is 12%). The eligibility conditions, qualifications and experience required for the posts and other details are given in **Annexure-I (A), (B), (C), (D)**.

3. It is requested that applications (in quadruplicate) of suitable and eligible officers and who can be spared immediately in the event of selection may be sent to **Shri Ram Bhagat Kushwaha, Under Secretary (ISTM Section) Training Division, Block-IV, 3rd Floor, JNU (OLD) Campus, New Delhi-110067** within a period of **60 days** from the date of publication of this advertisement in the Employment News/ Rozgar Samachar.

4. Applications of only such officers/candidates will be considered which are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the proforma as given in **Annexure-II (A), (B), (C), (D)** of the detailed Vacancy Circular, (ii) Cadre Clearance, (iii) Vigilance Clearance and (iv) Five years attested APAR. **Candidates who have already applied for the post of Additional Director in accordance with vacancy circular published in Employment News/Rozgar Samachar dated 27.12.2025 need not apply again, until and unless there is any change of experience, level etc which may be beneficial and relevant for the suitability for the post, as their candidature will be duly considered.**

5. Applications received after the closing date or without prescribed documents or otherwise found incomplete or not in the prescribed proforma are liable to be rejected.

6. Before forwarding the applications, Competent Authority must certify that the information furnished by the applicants are verified with their Service record and found correct and should also countersign the application with the office seal. It may also be confirmed that in the event of selection for appointment, the officer concerned will be relieved of his/her duties.

7. This may please be given wide circulation in various units of your organization.

Encl.: **Annexure I (A), (B), (C), (D)**
Annexure II (A), (B), (C), (D)

Yours faithfully,



(Shefali Saraf)

Under Secretary (Estt)
Telephone No. 26737614

Copy to:

1. Shri Ram Bhagat Kushwaha, Under Secretary (ISTM Section), Training Division, DoPT, Block-IV, 3rd Floor, JNU(OLD) Campus, New Delhi-110067
2. NIC, DoPT/ISTM with the request to upload the same on website of DoPT & ISTM.
3. Under Secretary (CS.I) [Kind Attn: Shri Sunil Kumar], Lok Nayak Bhawan, Khan Market, Delhi-110003- with a request to publish the vacancy circular on DoPT's website.

प्रशासनिक ब्लॉक, ज.ने.वि. परिसर (पुराना) / ADMINISTRATIVE BLOCK, JNU CAMPUS (OLD),
ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली - 110067 / OLOF PALME MARG, NEW DELHI - 110067
दूरभाष / TELEPHONE - 011-26104038; टेलीफैक्स / FAX - 011-26104183

ANNEXURE-I (A)

1. Name of Post : Additional Director
2. Number of posts : 01 (One)
3. Date from which vacant : 17.12.2024
4. Classification : General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial
5. Pay Band : Level 13 in the pay matrix (Rs.123100-215900).
6. Training Allowance : At such rate (at present @12%) on basic pay as determined by Government of India from time to time.
7. Period of deputation : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed **three years**.
8. Brief Job description of the post :
 - (i) To schedule, organize and direct training programmes for senior/supervisory and operating level officers of the Central /State Governments/ UTs/ PSUs/ Autonomous Bodies etc.
 - (ii) to develop training materials, case studies etc.
 - (iii) to develop e-contents, instruction design and curriculum design.
 - (iv) to conduct training session, Research activities, Consultancy work.
 - (v) to assist the Director of the Institute in Administrative and Training matters as may be assigned.
9. Pay & Allowances : The officer on appointment will be entitled to draw either "the pay of deputation post" or his/her "basic pay drawn in his parent Department/ Cadre plus training allowance thereon" at such rate on basic pay as determined by Government of India from time to time (at present training allowance is 12%).

10. Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post

Deputation (including short term contract)

Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or autonomous or statutory organisations: -

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or,

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-12 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

b) Possessing the following educational qualifications and experience: -

Essential:

(i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and

(ii) eight years' experience in administrative or establishment matters in ministerial posts in Government of India; and

(iii) two years' experience of conducting training programmes for organisations or training institutes under Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or autonomous bodies or statutory organisations.

Desirable:

(i) Masters' degree from a recognised University or institutes in Public Administration or Human Resource Management.

(ii) experience in the following areas: -

- a) One year experience in ministerial posts in Government of India in Integrated Finance Division or Administrative Vigilance or Accounts Division; or
- b) development of online training modules or instruction design or curriculum design.

11. Age

Not exceeding **fifty-six (56)** years as on closing date of receipt of applications.

ANNEXURE-II (A)

APPLICATION FOR THE POST OF ADDITIONAL DIRECTOR IN ISTM

BIO-DATA/ CURRICULUM VITAE PROFORMA

1.Name and Address (in Block Letters)	
2.Date of Birth (in Christian era)	
3.i) Date of entry into service	
ii) Date of retirement under Central/State Government Rules	
4. Educational Qualifications	
5. Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)	
Qualifications/ Experience required as mentioned in the advertisement/ vacancy circular	Qualifications/ experience possessed by the officer
Essential	Essential
(i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and	A) Qualification
Experience:- (i) eight years' experience in administrative or establishment matters in ministerial posts in Government of India; and (ii) two years' experience of conducting training programmes for organisations or training institutes under Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or autonomous bodies or statutory organisations.	B) Experience
Desirable	Desirable
(i) Masters' degree from a recognised University or institutes in Public Administration or Human Resource Management.	A) Qualification
(ii) experience in the following areas: - (a) One year experience in ministerial posts in Government	B) Experience

of India in Integrated Finance Division or Administrative Vigilance or Accounts Division; or (b) development of online training modules or instruction design or curriculum design.	
5.1 Note: This column needs to be amplified to indicate Essential and Desirable Qualifications as mentioned in the RRs by the Administrative Ministry/Department/Office at the time of issue of Circular and issue of Advertisement in the Employment News. 5.2 In the case of Degree and Post Graduate Qualifications Elective/ main subjects and subsidiary subjects may be indicated by the candidate .	
6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requisite Essential Qualifications and work experience of the post.	
6.1 Note: Borrowing Departments are to provide their specific comments/ views confirming the relevant Essential Qualification/ Work experience possessed by the Candidate (as indicated in the Bio-data) with reference to the post applied.	

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/Institution	Post held on regular basis	From	To	* Level in the Pay Matrix pay Band and Grade Pay/Pay Scale of the Post held on regular basis	Nature of Duties (in details) highlighting experience required for the post applied for

*** Important:** Pay-band and Grade Pay granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay Band and Grade Pay/ Pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below;

Office/Institution	Pay, Pay Band, and Grade Pay drawn under ACP/MACP Scheme	From	To

8. Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi-Permanent or Permanent			
9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state-			
a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/contract	c) Name of the parent office/organization to which the applicant belongs.	d) Name of the post and Pay of the post held in substantive capacity in the parent organisation.
<p>9.1 Note: In case of Officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre/ Department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity certificate.</p> <p>9.2 Note: Information under Column 9(c) & (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/ organization but still maintaining a lien in his parent cadre/ organisation</p>			
10. If any post held on Deputation in the past by the applicant, date of return from the last deputation and other details.			
<p>11. Additional details about present employment: Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column)</p> <p>a) Central Government b) State Government c) Autonomous Organisation d) Government Undertaking e) Universities f) Others</p>			
12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.			
13. Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale			
14. Total emolument per month now drawn			
Basis Pay in the PB/Level in the Pay Matrix	Grade Pay	Total Emoluments	

<p>15. In case the applicant belongs to an Organisation which is not following the Central Government Pay-scales, the latest salary slip issued by the Organisation showing the following details may be enclosed.</p>		
Basic Pay with Scale of Pay and rate of increment	Dearness Pay/interim relief/ other Allowances etc., (with break-up details)	Total Emoluments
<p>16.A Additional information, if any, relevant to the post you applied for in support of your suitability for the post. (This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/Advertisement) (Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient)</p>		
<p>16.B Achievements: The candidates are requested to indicate information with regard to; (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards / Scholarships / official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/ institutions/ societies and; (iv) Patents registered in own name or achieved for the organisation (v) Any research/ innovative measure involving official recognition (vi) any other information. (Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)</p>		
<p>17. Please state whether you are applying for deputation (ISTC) /Absorption /Re-employment Basis. # (Officers under Central/State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government Organisations are eligible only for Short Term Contract)</p>		
<p># (The option of 'STC'/ 'Absorption'/ 'Re-employment' are available only if the vacancy circular specially mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or "Re-employment")</p>		
<p>18. Whether belongs to SC/ST</p>		

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in

Contd....

respect of Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/ details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

(Signature of the Candidate)

Address _____

Date _____

Email ID _____

Contact Number _____

Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy Circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

2. Also certified that;

- i. There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/Smt. _____
- ii. His/ Her integrity is certified.
- iii. His/ Her CR Dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed.
- iv. No major/ minor penalty has been imposed on him/ her during the last 10 years or a list of major/ minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

(Employer/ Cadre Controlling Authority with Seal)

ELIGIBILITY, QUALIFICATIONS & EXPERIENCE

1. Name of Post : Joint Director (Behavioural Training)
2. Number of posts : 01 (One) Anticipated
3. Date from which vacant : 09-10-2026
4. Classification : General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial
5. Pay Band : Level-12 in the Pay Matrix (Rs. 78800-209200).
6. Training Allowance : At such rate (at present @12%) on basic pay as determined by Government of India from time to time.
7. Period of deputation : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed **four years**.
8. Duties and responsibilities of the post :
 - (i) To schedule, organize and direct training programmes for supervisory and operating level officers of the Central /State Governments/ Autonomous Bodies etc.
 - (ii) to produce training materials, case studies, practical experiences, etc. and
 - (iii) to assist the Director of the Institute in Administrative and Training matters
9. Pay & Allowances : The officer on appointment will be entitled to draw either "the pay of deputation post" or his/her "basic pay drawn in his parent Department/ Cadre plus training allowance thereon" at such rate on basic pay as determined by Government of India from time to time (at present training allowance is 12%).
10. Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post :

By deputation (Including Short Term Contract)

Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Public Sector Undertakings or Government Universities or recognized Research Institutes or Statutory or Autonomous Organization: -

 - (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the level 11 (Rs. 67700- 208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) Possessing the following educational qualification and experience, namely:-

Essential:

- (i) Bachelor's degree from a recognised University with Human Resource Management or Personnel Management or Management or Psychology or Industrial Psychology or Behavioural Science as a subject in graduation level; **and**
- (ii) five years' experience in Administrative or Establishment or Financial Matters.

Desirable:

- (i) Master's degree in Human Resource Management or Personnel Management or Management or Psychology or Industrial Psychology or Behavioural Science from a recognised University or institute;
- (ii) Department of Personnel and Training Certified Master Trainer or Recognised Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Programme (TDP);
- (iii) experience in any one or more of the following areas, namely:—
 - (a) one year experience in matters related to training;
 - or
 - (b) one year experience in development of online training modules or instruction design or curriculum design.

11. Age

Not exceeding **fifty-six (56)** years as on closing date of receipt of applications.

ANNEXURE-II (B)

**APPLICATION FOR THE POST OF JOINT DIRECTOR (BEHAVIOURAL TRAINING) IN
ISTM**

BIO-DATA/ CURRICULUM VITAE PROFORMA

1.Name and Address (in Block Letters)	
2.Date of Birth (in Christian era)	
3.i) Date of entry into service	
ii) Date of retirement under Central/State Government Rules	
4. Educational Qualifications	
5. Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)	
Qualifications/ Experience required as mentioned in the advertisement/ vacancy circular	Qualifications/ experience possessed by the officer
Essential	Essential
A) Qualification:- Bachelor's degree from a recognised University with Human Resource Management or Personnel Management or Management or Psychology or Industrial Psychology or Behavioural Science as a subject in graduation level.	A) Qualification
B) Experience:- Five years' experience in Administrative or Establishment or Financial Matters.	B) Experience
Desirable	Desirable
A) (i) Qualification:- Master's degree in Human Resource Management or Personnel Management or Management or Psychology or Industrial Psychology or Behavioural Science from a recognised University or institute; (ii) Department of Personnel and Training Certified Master Trainer or Recognised Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of	A) Qualification

Training (DoT) in Trainers Development Programme (TDP);	
Experience:- (i) one year experience in matters related to training; or (ii) one year experience in development of online training modules or instruction design or curriculum design.	B) Experience
5.1 Note: This column needs to be amplified to indicate Essential and Desirable Qualifications as mentioned in the RRs by the Administrative Ministry/Department/Office at the time of issue of Circular and issue of Advertisement in the Employment News.	
5.2 In the case of Degree and Post Graduate Qualifications Elective/ main subjects and subsidiary subjects may be indicated by the candidate.	
6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requisite Essential Qualifications and work experience of the post.	
6.1 Note: Borrowing Departments are to provide their specific comments/ views confirming the relevant Essential Qualification/ Work experience possessed by the Candidate (as indicated in the Bio-data) with reference to the post applied.	

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/Institution	Post held on regular basis	From	To	* Level in the Pay Matrix pay Band and Grade Pay/Pay Scale of the Post held on regular basis	Nature of Duties (in details) highlighting experience required for the post applied for

*** Important:** Pay-band and Grade Pay granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay Band and Grade Pay/ Pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below;

Office/Institution	Pay, Pay Band, and Grade Pay drawn under ACP/MACP Scheme	From	To
8. Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi-Permanent or Permanent			
9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state-			

a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/contract	c) Name of the parent office/organization to which the applicant belongs.	d) Name of the post and Pay of the post held in substantive capacity in the parent organisation.
<p>9.1 Note: In case of Officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre/ Department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity certificate.</p> <p>9.2 Note: Information under Column 9(c) & (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/ organization but still maintaining a lien in his parent cadre/ organisation</p>			
<p>10. If any post held on Deputation in the past by the applicant, date of return from the last deputation and other details.</p>			
<p>11. Additional details about present employment: Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column)</p> <p>a) Central Government b) State Government c) Autonomous Organisation d) Government Undertaking e) Universities f) Others</p>			
<p>12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.</p>			
<p>13. Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale</p>			
<p>14. Total emolument per month now drawn</p>			
Basis Pay in the PB/Level in the Pay Matrix	Grade Pay	Total Emoluments	
<p>15. In case the applicant belongs to an Organisation which is not following the Central Government Pay-scales, the latest salary slip issued by the Organisation showing the following details may be enclosed.</p>			

Basic Pay with Scale of Pay and rate of increment	Dearness Pay/interim relief/ other Allowances etc., (with break-up details)	Total Emoluments
<p>16.A Additional information, if any, relevant to the post you applied for in support of your suitability for the post. (This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/Advertisement) (Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient)</p>		
<p>16.B Achievements: The candidates are requested to indicate information with regard to; (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards / Scholarships / official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/ institutions/ societies and; (iv) Patents registered in own name or achieved for the organisation (v) Any research/ innovative measure involving official recognition (vi) any other information. (Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)</p>		
<p>17. Please state whether you are applying for deputation (ISTC) /Absorption /Re-employment Basis. # (Officers under Central/State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government Organisations are eligible only for Short Term Contract)</p>		
<p># (The option of 'STC'/ 'Absorption'/ 'Re-employment' are available only if the vacancy circular specially mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or "Re-employment")</p>		
<p>18. Whether belongs to SC/ST</p>		

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed

by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/ details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

(Signature of the Candidate)

Address _____

Date _____

Email ID _____

Contact Number _____

Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy Circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

2. Also certified that;

- i) There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/Smt. _____
- ii) His/ Her integrity is certified.
- iii) His/ Her CR Dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed.
- iv) No major/ minor penalty has been imposed on him/ her during the last 10 years or a list of major/ minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

(Employer/ Cadre Controlling Authority with Seal)

Annexure – I (C)

1. Name of Post : Deputy Director (Economics & Planning)
2. Number of posts : 01 (one)
3. Date from post vacant : 01.05.2020
4. Classification : General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial
5. Pay Band : Level 11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).
6. Training Allowance : At such rate (at present @12%) on basic pay as determined by Government of India from time to time.
7. Period of deputation : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed **four years**.
8. Duties and responsibilities: of the post :
 - (i) To schedule, organize and direct training programmes for supervisory and operating level officers of the Central /State Governments/ Autonomous Bodies etc.
 - (ii) to produce training materials, case studies, practical experiences, etc. and
 - (iii) to assist the Director of the Institute in Administrative and Training matters
9. Pay & Allowances : The officer on appointment will be entitled to draw either "the pay of deputation post" or his/her "basic pay drawn in his parent Department/ Cadre plus training allowance thereon" at such rate on basic pay as determined by Government of India from time to time (at present training allowance is 12%).
10. Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post :

By Deputation (including short term contract)

Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Universities or recognised research institutes or public sector undertakings or autonomous or statutory organisations-

 - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; **or**
 - (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-10 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and

b) Possessing the following educational qualifications and experience: -

Essential:

 - (i) Bachelor's degree with Economics as a subject from a recognised University or institute; and
 - (ii) Three years' experience in the field of economic policy (including planning and financial management)

including two years' experience of dealing with centrally sponsored or sector schemes.

Desirable:

(i) Master's degree in Economics or Business Administration (Finance) from a recognised University or institute.

(ii) two years' teaching or training experience in Economic Policy, Financial Management or Planning;

(iii) Department of Personnel and Training (DoPT) Certified Master Trainer or recognized Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Programme (TDP);

(iv) experience in any one or more of the following areas: -

- (a) one year experience of training related matters;
- (b) two years' experience in Administrative or Establishment or Financial matters in pay level 10 or above.
- (c) one year experience in Integrated Finance Division or Administrative Vigilance in pay level 10 or above.
- (d) one year experience in development of online training module or instruction design or curriculum design.

11. Age

Not exceeding **fifty-six (56)** years as on closing date of receipt of applications.

ANNEXURE-II (C)

**APPLICATION FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR (ECONOMICS & PLANNING)
IN ISTM
BIO-DATA/ CURRICULUM VITAE PROFORMA**

1.Name and Address (in Block Letters)	
2.Date of Birth (in Christian era)	
3.i) Date of entry into service	
ii) Date of retirement under Central/State Government Rules	
4. Educational Qualifications	
5.Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)	
Qualifications/ Experience required as mentioned in the advertisement/ vacancy circular	Qualifications/ experience possessed by the officer
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-10 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and	
Essential	Essential
(i) Bachelor's degree with Economics as a subject from a recognised University or institute; and	
(ii) Three years' experience in the field of economic policy (including planning and financial management) including two years' experience of dealing with centrally sponsored or sector schemes.	
Desirable	Desirable
(i) Master's degree in Economics or Business Administration (Finance) from a recognised University or institute.	
(ii) two years' teaching or training experience in Economic Policy, Financial Management or Planning;	
(iii) Department of Personnel and Training (DoPT) Certified Master Trainer or recognized Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Programme (TDP);	

(iv) experience in any one or more of the following areas: - (a) one year experience of training related matters; (b) two years' experience in Administrative or Establishment or Financial matters in pay level 10 or above. (c) one year experience in Integrated Finance Division or Administrative Vigilance in pay level 10 or above. (d) one year experience in development of online training module or instruction design or curriculum design.	
---	--

5.1 Note: This column needs to be amplified to indicate Essential and Desirable Qualifications as mentioned in the RRs by the Administrative Ministry/Department/Office at the time of issue of Circular and issue of Advertisement in the Employment News.

5.2 In the case of Degree and Post Graduate Qualifications Elective/ main subjects and subsidiary subjects may be indicated by the candidate.

6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requisite Essential Qualifications and work experience of the post.	
---	--

6.1 Note: Borrowing Departments are to provide their specific comments/ views confirming the relevant Essential Qualification/ Work experience possessed by the Candidate (as indicated in the Bio-data) with reference to the post applied.

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/Institution	Post held on regular basis	From	To	* Level in the Pay Matrix pay Band and Grade Pay/Pay Scale of the Post held on regular basis	Nature of Duties (in details) highlighting the experience required for the post applied for

*** Important:** Pay-band and Grade Pay granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay Band and Grade Pay/ Pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below;

Office/Institution	Pay, Pay Band, and Grade Pay drawn under ACP/MACP Scheme	From	To

8. Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi-Permanent or Permanent	
9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state-	

a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/contract	c) Name of the parent office/organization to which the applicant belongs.	d) Name of the post and Pay of the post held in substantive capacity in the parent organisation.
<p>9.1 Note: In case of Officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre/ Department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity certificate.</p> <p>9.2 Note: Information under Column 9(c) & (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/ organization but still maintaining a lien in his parent cadre/ organization</p>			
<p>10. If any post held on Deputation in the past by the applicant, date of return from the last deputation and other details.</p>			
<p>11. Additional details about present employment: Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column)</p> <p>i. Central Government ii. State Government iii. Autonomous Organisation iv. Government Undertaking v. Universities vi. Others</p>			
<p>12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.</p>			
<p>13. Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale</p>			
<p>14. Total emolument per month now drawn</p>			
Basis Pay in the PB/Level in the Pay Matrix		Grade Pay	Total Emoluments
<p>15. In case the applicant belongs to an Organisation which is not following the Central Government Pay-scales, the latest salary slip issued by the Organisation showing the following details may be enclosed.</p>			
Basic Pay with Scale of Pay and rate of increment		Dearness Pay/interim relief/ other Allowances etc., (with break-up details)	Total Emoluments
<p>16.A Additional information, if any, relevant to the post you applied for in support of your suitability for the post. (This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/Advertisement) (Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient)</p>			

<p>16.B Achievements: The candidates are requested to indicate information with regard to; (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards / Scholarships / official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/ institutions/ societies and; (iv) Patents registered in own name or achieved for the organisation (v) Any research/ innovative measure involving official recognition (vi) any other information. (Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)</p>	
<p>17. Please state whether you are applying for deputation or Short Term Contract</p>	
<p>18. Whether belongs to SC/ST</p>	

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/ details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

(Signature of the Candidate)

Address _____

Date _____

Email ID _____

Contact Number _____

Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy Circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

2. Also certified that;

- i) There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/Smt. _____
- ii) His/ Her integrity is certified.
- iii) His/ Her CR Dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed.
- iv) No major/ minor penalty has been imposed on him/ her during the last 10 years or a list of major/ minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

(Employer/ Cadre Controlling Authority with Seal)

Annexure – I (D)

1. Name of Post : Assistant Director (Office Management)
2. Number of posts : 01 (One)
3. Date from which vacant : 07.04.2026
4. Classification : General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial
5. Pay Band : Level-8 in the pay matix (Rs. 47600/- to Rs. 151100/-)
6. Training Allowance : At such rate (at present 12%) on basic pay as determined by Government of India from time to time.
7. Period of deputation : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed **three years**.
8. Duties and responsibilities of the post :
 - (i) To schedule, organize and direct training programmes for senior/supervisory and operating level officers of the Central /State Governments/ UTs/ PSUs/ Autonomous Bodies etc.
 - (ii) to develop training materials, case studies etc.
 - (iii) to develop e-contents, instruction design and curriculum design.
 - (iv) to conduct training session, Research activities, Consultancy work.
 - (v) to assist the Director of the Institute in Administrative and Training matters as may be assigned.
9. Pay & Allowances : The officer on appointment will be entitled to draw either "the pay of deputation post" or his/her "basic pay drawn in his parent Department/ Cadre plus training allowance thereon" at such rate on basic pay as determined by Government of India from time to time (at present training allowance is 12%).

10. Qualifications,
Experiences and Eligibility
required for the post

Deputation: Officers under Central Government: -

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and
(b) Possessing the following educational qualifications and experience, namely: -

Essential:

- (i) Bachelor's Degree in any discipline from a recognised University or institute;
(ii) one year experience in General Administration or Establishment in financial matters in ministerial posts in Government of India.

Desirable:

- (i) Master's Degree from a recognised University or institute in Public Administration or Human Resource Management.
(ii) Department of Personnel and Training certified Master Trainer or Recognised Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Programme (TDP).
(iii) one year experience in development of online Training Module or instruction design or curriculum design.

11. Age

Not exceeding **fifty-six (56)** as on closing date of receipt of applications.

ANNEXURE-II (D)

APPLICATION FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR (OFFICE MANAGEMENT)
IN ISTM

BIO-DATA/ CURRICULUM VITAE PROFORMA

1.Name and Address (in Block Letters)	
2.Date of Birth (in Christian era)	
3.i) Date of entry into service	
ii) Date of retirement under Central/State Government Rules	
4. Educational Qualifications	
5. Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)	
Qualifications/ Experience required as mentioned in the advertisement/ vacancy circular	Qualifications/ experience possessed by the officer
a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-7 (Rs. 44900- 142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and	
Essential	Essential
C) Qualification:- Bachelor's Degree in any discipline from a recognised University or institute.	A) Qualification
D) Experience:- one year experience in General Administration or Establishment in financial matters in ministerial posts in Government of India.	B) Experience
Desirable	Desirable
Qualification:- (i) Master's Degree from a recognised University or institute in Public	Qualification

Administration or Human Resource Management. (ii) Department of Personnel and Training certified Master Trainer or Recognised Trainer or Direct Trainer Skills (DTS) or Design of Training (DoT) in Trainers Development Programme (TDP).	
Experience:- One year experience in development of online Training Module or instruction design or curriculum design.	Experience
<p>5.1 Note: This column needs to be amplified to indicate Essential and Desirable Qualifications as mentioned in the RRs by the Administrative Ministry/Department/Office at the time of issue of Circular and issue of Advertisement in the Employment News.</p> <p>5.2 In the case of Degree and Post Graduate Qualifications Elective/ main subjects and subsidiary subjects may be indicated by the candidate.</p>	
6 Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requisite Essential Qualifications and work experience of the post.	
<p>6.1 Note: Borrowing Departments are to provide their specific comments/ views confirming the relevant Essential Qualification/ Work experience possessed by the Candidate (as indicated in the Bio-data) with reference to the post applied.</p>	

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/Institution	Post held on regular basis	From	To	Level in the Pay Matrix pay Band and Grade Pay/Pay Scale of the Post held on regular basis	Nature of Duties (in details) highlighting experience required for the post applied for

*** Important:** Pay-band and Grade Pay granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay Band and Grade Pay/ Pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below;

Office/Institution	Pay, Pay Band, and Grade Pay drawn under ACP/MACP Scheme	From	To

8. Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi-Permanent or Permanent			
9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state-			
a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/contract	c) Name of the parent office/organization to which the applicant belongs.	d) Name of the post and Pay of the post held in substantive capacity in the parent organisation.
<p>9.1 Note: In case of Officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre/ Department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity certificate.</p> <p>9.2 Note: Information under Column 9(c) & (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/ organization but still maintaining a lien in his parent cadre/ organisation</p>			
10. If any post held on Deputation in the past by the applicant, date of return from the last deputation and other details.			
<p>11. Additional details about present employment: Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column)</p> <p>a) Central Government b) State Government c) Autonomous Organisation d) Government Undertaking e) Universities f) Others</p>			
12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.			
13. Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale			
14. Total emolument per month now drawn			

Basis Pay in the PB/Level in the Pay Matrix	Grade Pay	Total Emoluments
<p>15. In case the applicant belongs to an Organisation which is not following the Central Government Pay-scales, the latest salary slip issued by the Organisation showing the following details may be enclosed.</p>		
Basic Pay with Scale of Pay and rate of increment	Dearness Pay/interim relief/ other Allowances etc., (with break-up details)	Total Emoluments
<p>16.A Additional information, if any, relevant to the post you applied for in support of your suitability for the post. (This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/Advertisement) (Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient)</p>		
<p>16.B Achievements: The candidates are requested to indicate information with regard to; (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards / Scholarships / official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/ institutions/ societies and; (iv) Patents registered in own name or achieved for the organisation (v) Any research/ innovative measure involving official recognition (vi) any other information. (Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)</p>		
<p>17. Please state whether you are applying for deputation (ISTC) /Absorption /Re-employment Basis. # (Officers under Central/State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government Organisations are eligible only for Short Term Contract)</p>		
<p># (The option of 'STC'/ 'Absorption'/ 'Re-employment' are available only if the vacancy circular specially mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or "Re-employment")</p>		
<p>18. Whether belongs to SC/ST</p>		

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware

that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/ details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

(Signature of the Candidate)

Address _____

Date _____

Email _____

Contact No. _____

Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy Circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

2. Also certified that;

- i) There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/Smt. _____
- ii) His/ Her integrity is certified.
- iii) His/ Her CR Dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed.
- iv) No major/ minor penalty has been imposed on him/ her during the last 10 years or a list of major/ minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

(Employer/ Cadre Controlling Authority with Seal)